



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248546
CG-DL-E-05092023-248546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3740]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945

No. 3740]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

का. आ. 3902(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के (1989 का 24), 2008 के रेल (संशोधित) अधिनियम (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, तथा आपरेशन के लिए विशेष रेल परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० 37.000 से कि०मी० 50.350 तक लोक परियोजन के लिए यह भूमि आपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, उपमण्डल अधिकारी (सिविल) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) गुरुग्राम को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला गुरुग्राम में विशेष परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखोदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० 37.000 से कि०मी० 50.350 तक के लिए अर्जन की जानी वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : लांगडा				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6//16 min	चाही	निजी	0.0177
2	6//25/2 min	चाही	निजी	0.0304
3	8//1 min	चाही	निजी	0.0304
4	8//10/1 min	चाही	निजी	0.0152
5	8//12 min	चाही	निजी	0.0101
6	8//18/2 min	चाही	निजी	0.0003
7	8//19/1 min	चाही	निजी	0.0152
8	8//23 min	चाही	निजी	0.0202
9	9//5/1/2 min	चाही	निजी	0.0025
10	20//3/1/2 min	चाही व गैर मुमकिन मकान	निजी	0.0253
11	20//4/1	चाही	निजी	0.0008
12	20//4/2 min	चाही	निजी	0.0051
13	20//7/1 min	चाही व गैर मुमकिन मकान	निजी	0.0228
14	20//14/2 min	चाही	निजी	0.0101
15	20//16 min	चाही	निजी	0.0152
16	20//25/2 min	चाही	निजी	0.0025
जोड़				0.2238
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : बाघंनकी				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	44//8/2 min	चाही	निजी	0.0126
2	44//13 min	चाही	निजी	0.0202
3	44//14 min	चाही	निजी	0.0025
4	44//17 min	चाही	निजी	0.0304
5	44//24/2 min	चाही	निजी	0.0202
6	44//25 min	चाही	निजी	0.0051
7	52//5 min	चाही	निजी	0.0354
8	244 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0010
जोड़				0.1274

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : चांदला डूंगरवास				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4//8 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0177
2	4//13/1 min	चाही	निजी	0.0177
3	4//13/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0379
4	4//18 min	चाही	निजी	0.0505
5	32//21 min	चाही	निजी	0.0051
6	34//1/2/2 min	चाही	निजी	0.0101
7	34//2/1 min	चाही	निजी	0.0025
8	34//2/2 min	चाही	निजी	0.0101
9	34//9 min	चाही	निजी	0.0304
10	34//12/2 min	चाही	निजी	0.0253
11	34//13/2 min	चाही	निजी	0.0051
12	34//18 min	चाही व गैर मुमकिन ट्यूवैल व मकान	निजी	0.0253
13	34//23/2 min	चाही	निजी	0.0101
जोड़				0.2478
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : फाजलवास				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5//10 min	चाही	निजी	0.0582
2	5//11/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
3	5//11/2 min	चाही	निजी	0.0885
4	5//20/1 min	चाही	निजी	0.0479
5	5//20/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0431
6	5//21/1 min	गैर मुमकिन फैक्टरी	निजी	0.1062
7	9//1 min	गैर मुमकिन मकान	निजी	0.0278
8	9//10/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0304
9	9//11/1 min	चाही	निजी	0.0025
10	9//11/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0278
11	9//20/1 min	चाही	निजी	0.0404
12	9//20/2 min	चाही	निजी	0.0101
13	9//21/1 min	चाही	निजी	0.0404
14	18//1 min	चाही	निजी	0.0253
15	18//10 min	चाही	निजी	0.0076
16	22//2 min	चाही	निजी	0.0051
17	22//3 min	चाही	निजी	0.0007

18	22//8 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0152
19	22//13/1/1 min	चाही	निजी	0.0025
20	22//13/1/2 min	चाही	निजी	0.0101
21	22//13/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0126
22	22//18 min	बंजर कदीम	निजी	0.0404
23	22//23 min	गैर मुमकिन नाला	निजी	0.0253
जोड़				0.6706
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : कुकरोला				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	38//25/2 min	चाही	निजी	0.0354
2	41//5/1 min	चाही	निजी	0.0152
3	41//5/2 min	चाही	निजी	0.0329
4	41//6 min	चाही	निजी	0.0202
5	42//1/1 min	चाही	निजी	0.0076
6	42//10/2/1 min	चाही	निजी	0.0581
7	42//10/2/2 min	चाही	निजी	0.0051
8	42//11/1/2/1 min	चाही	निजी	0.0784
9	42//20/1/2 min	चाही	निजी	0.0076
10	42//21/2/2/2 min	चाही	निजी	0.0354
11	48//2 min	चाही	निजी	0.0304
12	48//9 min	चाही	निजी	0.0152
13	48//1min	चाही	निजी	0.0253
14	51 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0101
15	52/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0101
जोड़				0.3870
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर				
ग्राम का नाम : मोकलवास				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	13//17/1 min	चाही	निजी	0.0126
2	13//17/3/1 min	चाही	निजी	0.0202
3	13//24/3 min	चाही	निजी	0.0278
4	13//25 min	चाही	निजी	0.0253
5	51//5/1 min	चाही	निजी	0.0101
6	51//5/2 min	चाही	निजी	0.0304
7	51//6/1 min	चाही	निजी	0.0278
8	52//10/2 min	चाही	निजी	0.0025
9	52//11/1 min	गैर मुमकिन चाह	निजी	0.0228
10	52//11/2 min	चाही	निजी	0.0126
11	52//20 min	चाही	निजी	0.0253

12	52//21/2 min	चाही	निजी	0.0152
13	52//22/1 min	चाही	निजी	0.0177
14	53//2 min	चाही	निजी	0.0278
15	53//8/2 min	चाही	निजी	0.0076
16	53//9/1 min	चाही	निजी	0.0228
17	53//13/1 min	चाही	निजी	0.0101
18	53//13/2 min	चाही	निजी	0.0178
19	53//18/1 min	चाही	निजी	0.0051
20	53//17 min	चाही	निजी	0.0101
21	53//18/2/1 min	चाही	निजी	0.0177
22	53//24 min	चाही	निजी	0.0304
23	55//4/1 min	चाही	निजी	0.0101
24	65/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
25	66/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
जोड़				0.4148

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : मानेसर

ग्राम का नाम : कासन

क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	160//16/1 min	चाही	निजी	0.0152
2	160//25/2 min	चाही	निजी	0.0202
3	177//21 min	चाही	निजी	0.0202
4	178//5/2 min	चाही	निजी	0.0177
5	178//6/1/2 min	चाही	निजी	0.0025
6	178//6/2/1 min	चाही	निजी	0.0228
7	178//15/2 min	चाही	निजी	0.0304
8	178//16/1 min	चाही	निजी	0.0304
9	178//25/2 min	चाही	निजी	0.0101
10	178//28 min	चाही	निजी	0.0076
11	181//1 min	चाही	निजी	0.0152
12	181//10/1 min	चाही	निजी	0.0354
13	181//11/1/2 min	चाही	निजी	0.0253
14	181//20/1 min	चाही	निजी	0.0304
15	181//21/1 min	चाही	निजी	0.0051
16	181//21/2/2 min	चाही	निजी	0.0126
17	181//22/1 min	चाही	निजी	0.0051
18	181//22/2 min	चाही	निजी	0.0076
19	193//2 min	चाही	निजी	0.0051
20	199//13/2 min	चाही	निजी	0.0025
21	199//18 min	चाही	निजी	0.0354
22	199//23/2 min	चाही	निजी	0.0076
23	199//23/3 min	चाही	निजी	0.0177
24	199//24 min	चाही	निजी	0.0101

25	200//4 min	चाही	निजी	0.0253
26	200//5 min	चाही	निजी	0.0051
27	200//6 min	चाही	निजी	0.0379
28	201//11 min	चाही	निजी	0.0025
29	232/3 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0051
30	313 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
31	710 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
32	720 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
जोड़				0.4756
कुल जोड़				2.5470

[फा. संख्या- 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2023

S.O. 3902(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 37.000 to K.M. 50.350 in the District of Gurugram in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer (Civil), Gurugram (Land Acquisition Section) in his office at Gurgaon in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Haryana Orbital Rail Corridor Project in the district Gurugram, in the State of Haryana.

Name of District : Gurugram				
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Langra				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6//16 min	Chahi	Private	0.0177
2	6//25/2 min	Chahi	Private	0.0304
3	8//1 min	Chahi	Private	0.0304
4	8//10/1 min	Chahi	Private	0.0152

5	8//12 min	Chahi	Private	0.0101
6	8//18/2 min	Chahi	Private	0.0003
7	8//19/1 min	Chahi	Private	0.0152
8	8//23 min	Chahi	Private	0.0202
9	9//5/1/2 min	Chahi	Private	0.0025
10	20//3/1/2 min	Chahi and Gair Mumkin Makan	Private	0.0253
11	20//4/1	Chahi	Private	0.0008
12	20//4/2 min	Chahi	Private	0.0051
13	20//7/1 min	Chahi and Gair Mumkin Makan	Private	0.0228
14	20//14/2 min	Chahi	Private	0.0101
15	20//16 min	Chahi	Private	0.0152
16	20//25/2 min	Chahi	Private	0.0025
Sub Total				0.2238
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Bhaganki				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	44//8/2 min	Chahi	Private	0.0126
2	44//13 min	Chahi	Private	0.0202
3	44//14 min	Chahi	Private	0.0025
4	44//17 min	Chahi	Private	0.0304
5	44//24/2 min	Chahi	Private	0.0202
6	44//25 min	Chahi	Private	0.0051
7	52//5 min	Chahi	Private	0.0354
8	244 min	Gair Mumkin rasta	Private	0.0010
Sub Total				0.1274
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Chandla Dungarwas				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4//8 min	Gair Mumkin	Private	0.0177
2	4//13/1 min	Chahi	Private	0.0177
3	4//13/2 min	Bnajar Kadeem	Private	0.0379
4	4//18 min	Chahi	Private	0.0505
5	32//21 min	Chahi	Private	0.0051
6	34//1/2/2 min	Chahi	Private	0.0101
7	34//2/1 min	Chahi	Private	0.0025
8	34//2/2 min	Chahi	Private	0.0101
9	34//9 min	Chahi	Private	0.0304
10	34//12/2 min	Chahi	Private	0.0253
11	34//13/2 min	Chahi	Private	0.0051
12	34//18 min	Chahi and Gair Mumkin Taubel and Makan	Private	0.0253
13	34//23/2 min	Chahi	Private	0.0101

Sub Total				0.2478
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Fazalwas				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5//10 min	Chahi	Private	0.0582
2	5//11/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
3	5//11/2 min	Chahi	Private	0.0885
4	5//20/1 min	Chahi	Private	0.0479
5	5//20/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0431
6	5//21/1 min	Gair Mumkin Company	Private	0.1062
7	9//1 min	Gair Mumkin House	Private	0.0278
8	9//10/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0304
9	9//11/1 min	Chahi	Private	0.0025
10	9//11/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0278
11	9//20/1 min	Chahi	Private	0.0404
12	9//20/2 min	Chahi	Private	0.0101
13	9//21/1 min	Chahi	Private	0.0404
14	18//1 min	Chahi	Private	0.0253
15	18//10 min	Chahi	Private	0.0076
16	22//2 min	Chahi	Private	0.0051
17	22//3 min	Chahi	Private	0.0007
18	22//8 min	Gair Mumkin	Private	0.0152
19	22//13/1/1 min	Chahi	Private	0.0025
20	22//13/1/2 min	Chahi	Private	0.0101
21	22//13/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0126
22	22//18 min	Banjar Kadeem	Private	0.0404
23	22//23 min	Gair Mumkin Nala	Private	0.0253
Sub Total				0.6706
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Kukrola				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	38//25/2 min	Chahi	Private	0.0354
2	41//5/1 min	Chahi	Private	0.0152
3	41//5/2 min	Chahi	Private	0.0329
4	41//6 min	Chahi	Private	0.0202
5	42//1/1 min	Chahi	Private	0.0076
6	42//10/2/1 min	Chahi	Private	0.0581
7	42//10/2/2 min	Chahi	Private	0.0051
8	42//11/1/2/1 min	Chahi	Private	0.0784
9	42//20/1/2 min	Chahi	Private	0.0076
10	42//21/2/2/2 min	Chahi	Private	0.0354
11	48//2 min	Chahi	Private	0.0304
12	48//9 min	Chahi	Private	0.0152
13	48//1min	Chahi	Private	0.0253
14	51 min	Gair Mumkin	Private	0.0101
15	52/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0101

Sub Total				0.3870
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Mokalwas				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	13//17/1 min	Chahi	Private	0.0126
2	13//17/3/1 min	Chahi	Private	0.0202
3	13//24/3 min	Chahi	Private	0.0278
4	13//25 min	Chahi	Private	0.0253
5	51//5/1 min	Chahi	Private	0.0101
6	51//5/2 min	Chahi	Private	0.0304
7	51//6/1 min	Chahi	Private	0.0278
8	52//10/2 min	Chahi	Private	0.0025
9	52//11/1 min	Gair Mumkin Chah	Private	0.0228
10	52//11/2 min	Chahi	Private	0.0126
11	52//20 min	Chahi	Private	0.0253
12	52//21/2 min	Chahi	Private	0.0152
13	52//22/1 min	Chahi	Private	0.0177
14	53//2 min	Chahi	Private	0.0278
15	53//8/2 min	Chahi	Private	0.0076
16	53//9/1 min	Chahi	Private	0.0228
17	53//13/1 min	Chahi	Private	0.0101
18	53//13/2 min	Chahi	Private	0.0178
19	53//18/1 min	Chahi	Private	0.0051
20	53//17 min	Chahi	Private	0.0101
21	53//18/2/1 min	Chahi	Private	0.0177
22	53//24 min	Chahi	Private	0.0304
23	55//4/1 min	Chahi	Private	0.0101
24	65/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
25	66/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
Sub Total				0.4148
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Manesar				
Name of Village: Kasan				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	160//16/1 min	Chahi	Private	0.0152
2	160//25/2 min	Chahi	Private	0.0202
3	177//21 min	Chahi	Private	0.0202
4	178//5/2 min	Chahi	Private	0.0177
5	178//6/1/2 min	Chahi	Private	0.0025
6	178//6/2/1 min	Chahi	Private	0.0228
7	178//15/2 min	Chahi	Private	0.0304
8	178//16/1 min	Chahi	Private	0.0304
9	178//25/2 min	Chahi	Private	0.0101
10	178//28 min	Chahi	Private	0.0076
11	181//1 min	Chahi	Private	0.0152
12	181//10/1 min	Chahi	Private	0.0354
13	181//11/1/2 min	Chahi	Private	0.0253
14	181//20/1 min	Chahi	Private	0.0304

15	181//21/1 min	Chahi	Private	0.0051
16	181//21/2/2 min	Chahi	Private	0.0126
17	181//22/1 min	Chahi	Private	0.0051
18	181//22/2 min	Chahi	Private	0.0076
19	193//2 min	Chahi	Private	0.0051
20	199//13/2 min	Chahi	Private	0.0025
21	199//18 min	Chahi	Private	0.0354
22	199//23/2 min	Chahi	Private	0.0076
23	199//23/3 min	Chahi	Private	0.0177
24	199//24 min	Chahi	Private	0.0101
25	200//4 min	Chahi	Private	0.0253
26	200//5 min	Chahi	Private	0.0051
27	200//6 min	Chahi	Private	0.0379
28	201//11 min	Chahi	Private	0.0025
29	232/3 min	Gair Mumkin	Private	0.0051
30	313 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
31	710 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
32	720 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
Sub Total				0.4756
Grand Total				2.5470

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (Const.)